

Udaipur News: सलुंबर में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, उदयपुर में तलवारे लहराने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार

Edited by सम्रत चतुर्वेदी | LipiUpdated: 17 Mar 2022, 12:20 am

Rajasthan News: उदयपुर में आबाकारी विभाग के निरोधक दस्ते ने नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से होली पर भारी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई होने वाली थी। लेकिन आबाकारी विभाग की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सारा माल जब्त कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।



भगवान प्रजापत, उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर (udaipur) जिले में आबाकारी विभाग (Excise Department) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आबाकारी विभाग की टीम ने यहां से नकली शराब बनाने का सामान और पैकिंग के सामान को जब्त किया है। यह फैक्ट्री उदयपुर जिले के सलुंबर क्षेत्र में संचालित हो रही थी। यहां पर बन रही शराब को होली से पहले सप्लाई किया जाना था लेकिन आबाकारी विभाग की टीम ने पहले ही छापा मारकर नकली शराब को जब्त कर लिया।

स कार्रवाई के बाद अतिरिक्त आबाकारी अधिकारी जितेंद्र सोढ़ा ने बताया कि आबाकारी आयुक्त चेतन देवड़ा के निर्देशन में पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उदयपुर के सलुंबर के खरका क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक मारुति वेन को रोक कर तलाशी ली गई। उसमें एक नामी ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 10 कार्टन पाए गए। पूछताछ में पता चला कि खरका गांव में ही एक अवैध फैक्ट्री में नकली शराब बनाई जा रही है। इसके बाद आबाकारी विभाग की टीम ने बताए स्थान पर दबिश देकर भारी मात्रा में उसी ब्रांड की नकली शराब बनाने में सामग्री को जब्त किया।

आबाकारी की टीम ने मौके से जब्त किया सामान

आबाकारी की टीम ने मौके से 50 लीटर स्पिरिट, उसी ब्रांड के 25 कार्टन और 1680 पच्चे नकली शराब मिली। इसके अलावा पैकिंग के लिए 730 गत्ता कार्टन, एक ड्रम, 3580 ढक्कन, 2450 मोनो केप, 2975 लेबल, 250 मिलीलीटर कलर, 500 मिलीलीटर एसेंस, 200 खाली पच्चे बरामद किए गए। सोढ़ा ने बताया कि खरका निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। होली के त्यौहार को देखते हुए क्षेत्र में यह नकली शराब खपाने की पूरी तैयारी थी।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/udaipur/udaipur-police-raid-on-fake-liquor-factory-in-salumber-one-accused-arrested/articleshow/90277201.cms?miniv=true>